

(c) The district-wise details are as follows:—

Name of district	No. of villages in the district	No. of villages declared to have crop loss of 50% and more
1. Balasore	4353	1048
2. Balañsir	2803	2107
3. Cuttack	6682	3919
4. Dhenkanal	3167	2806
5. Ganjam	4532	1416
6. Kalahandi	2812	2303
7. Keonjhar	2048	1782
8. Koraput	5766	1085
9. Mayurbhanj	3972	2965
10. Phulbani	4649	718
11. Puri	3968	1501
12. Samtalpur	3598	2835
13. Sundergarh	1604	1468
TOTAL	50854	26253

Shortage of Sugar

99. SHRI V. KISHORE CHANDRA S. DEO: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the existing stocks of sugar in the country are far short of the demand;

(b) if so, what arrangements have been made to meet the shortage of sugar till the next season; and

(c) the steps being proposed to be taken by Government to increase the production of sugar in the next sugar season?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) and (b). The existing stocks of sugar

in the country are not short of demand for the remaining months of the sugar season. There is adequate availability of sugar to meet the requirement of internal consumption till the end of the current 1979-80 season at the normal monthly levy and free-sale release of about 4 lakh tonnes. The demand for sugar in rainy season is lower as compared to that in other months.

(c) To maximise the sugar production in the coming 1980-81 season and to ensure larger availability of sugar in early part of the season, a scheme for the grant of incentives to the sugar factories by way of rebate in excise duty for early start of crushing operations, is under consideration.

खाद्यान्नों का भंडार (स्टाक) और रबी फसल की वसूली

101. श्री भीखा भारद्वाज: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खाद्यान्नों का भण्डार कितना है और यह कितनी अवाधि के लिए पर्याप्त होगा; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान सरकारी एजेंसियों द्वारा अब तक वसूल की गई रबी फसल के खाद्यान्नों की मात्रा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन): (क) सभी एजेंसियों के पास 1-5-80 को खाद्यान्नों का कुल अनुमानित स्टॉक लगभग 137 लाख मीटरी टन था। स्टॉक स्थिति हमेशा बदलती रहती है क्योंकि वसूली से स्टॉक में वृद्धि होती है और स्टॉक के खाद्यान्न देने से स्टॉक में कमी होती है। क्योंकि वसूली तथा वितरण उत्पादन तथा बाजार में उपलब्धता जैसी कई बातों पर निर्भर करता है इसलिए उस अवाधि के बारे में बताना सम्भव नहीं है जिसके लिए सरकार के पास फिलहाल उपलब्ध स्टॉक पर्याप्त होगा।

(ख) जैसाकि 5-6-1980 तक सूचित किया गया है, चालू रबी विपणन सीसन 1980-81 के दौरान लगभग 55.03 लाख मीटरी टन गेहूँ की वसूली की गई है।